



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2002/माघ 24, 1923

No. 22]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2002/MAGHA 24, 1923

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 13 फरवरी, 2002

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध) संशोधन विनियम, 2002

आर.पी.डी./एन.जेड.ओ./2002.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध) विनियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. यह विनियम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध) संशोधन विनियम, 2002 कहा जाएगा।
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गम और प्रबंध), संशोधन विनियम 1972 में विनियम 21 के उप-विनियम (क) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि बांड धारकों के हित और अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए विकास बैंक अपने निर्गम के निबंधनों के अनुसार कॉल ऑप्शन का प्रवर्तित करने पर अथवा परिपक्वता पर विकास बैंक के कार्यालय में बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना बांड पर सदेव राशि का भुगतान कर सकता है।”

बी. डी. उशीर, विधि सलाहकार

[विज्ञापन-III/IV/135/2002/असा.]

टिप्पणी.—मूल विनियम दिनांक 12-2-1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्न के द्वारा संशोधित किए गए थे :

- (i) दिनांक 12-02-1997 की अधिसूचना
- (ii) दिनांक 16-06-2000 की अधिसूचना

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th February, 2002

Industrial Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Amendment Regulations, 2002

RPD/NZO/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Board, with the previous approval of the Central Government, makes the following further amendment to the Industrial Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1972, namely :

1. This regulation may be called the Industrial Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Amendment Regulations, 2002.

2. In the Industrial Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1972, in regulation 21, at the end of sub-regulation (a) the following proviso shall inserted namely :—

“Provided that the Development Bank may, having regard to the interest of the holder of the Bonds and other relevant factors, make the payment of the amount due on the Bond without requiring its presentment at the office of the Development Bank invoking call option as per the terms of its issue or on maturity.”

B. D. USHIR, Legal Adviser

[ADV T III/TV/135/2002/Ext.]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India dated 12-02-1997 and subsequently amended vide :

(i) notification dated 12-02-1997.

(ii) notification dated 16-06-2000.